



प्रेस नोट

कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल पर्वेक्षण एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के मार्गदर्शन में आज दिनांक 12.09.2022 को मैं प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा मय हमराह मय सरकारी वाहन थाना हाजा से खाना होकर चोरी गये कन्टेनर जो थाना स्थानीय पर वादी श्री आदर्श तिवारी पुत्र श्री सर्वेश तिवारी निवासी ग्राम डिघवट चिल्ला थाना चिल्ला जनपद बांदा मो0नं0 8295103413 द्वारा एक कन्टेनर नं0- HR 55 W 5406 जिसमें 332 बाक्स BLUE STAR एसी लदी हुयी थी । जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है ग्राम सनगांव से दो अज्ञात ब्यक्ति द्वारा चोरी करके ले गये थे जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 677/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है । की तलाश हेतु चौकी बाकरगंज पर आपस मे चोरी गये कन्टेनर के सम्बन्ध मे विचार विमर्श कर रहे थे तभी मुखबिर खास सूचना मिली की जो आप के यहाँ से कन्टेनर चोरी गया था वह लोधीगंज हाइवे पर पुलिया के पास खड़ा है । जिसपर दो व्यक्ति बैठे हुए है । यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है । इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले मुखबिर को साथ लेकर मौके पर पहुँचे तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि जो कन्टेनर हाइवे पुलिया के बाये तरफ खडा है वही आपके मुकदमे से सम्बन्धित है । उसमे 02 व्यक्ति भी बैठे है । हम पुलिस वालो ने घेरघार कर एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया । जिनसे नाम पूछा गया तो 1. रामजी सिंह S/O हौसिला प्रसाद सिंह उम्र 33 वर्ष नि0ग्राम विक्रमपुर पो0 धनुपुर थाना सराय ममरेज तहसील हण्डिया प्रयागराज बताया व दूसरे ने अपना नाम 2. सोनू सिंह S/O लालमनि सिंह उम्र 37 वर्ष नि0ग्राम विक्रमपुर पो0 धनुपुर थाना सराय ममरेज तहसील हण्डिया जनपद प्रयागराज बताया । बरामद शुदा कन्टेनर नं0- HR 55 W 5406 के बारे मे पूछने पर दोनो ने ही बताया कि साहब यह कन्टेनर हम दोनो ने मिलकर ग्राम सनगांव के पास से चोरी किया था जिसमे AC लदी है जिन्हे हम लोग कही बाहर ले जाकर बेचने की योजना मे थे किन्तु आपलोगो ने पकड़ लिया । चोरी गये कन्टेनर नं0- HR 55 W 5406 जिसमे AC लदी है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है । अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण व आपराधिक इतिहास-

1.	सोनू सिंह S/O लालमनि सिंह उम्र 37 वर्ष नि0ग्राम विक्रमपुर पो0 धनुपुर थाना सराय ममरेज तहसील हण्डिया जनपद प्रयागराज	मु0अ0सं0 – 677/2022 धारा 379/411 भादवि
2.	रामजी सिंह S/O हौसिला प्रसाद सिंह उम्र 33 वर्ष नि0ग्राम विक्रमपुर पो0 धनुपुर थाना सराय ममरेज तहसील हण्डिया प्रयागराज	मु0अ0सं0 – 677/2022 धारा 379/411 भादवि

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी गये कन्टेनर नं0- HR 55 W 5406 जिसमे AC लदी है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रूपये है ।

पुलिस टीम का विवरण	
	प्रभारी नि0 श्री अमित कुमार मिश्रा
	व0उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार सिंह
	उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार यादव
	का0 योगेश लौहकना
	का0 शिवाकान्त
	का0 वीरेन्द्र पाल
	का0 अनीश यादव
	म0का0 निधि पाल
	म0का0 स्नेहा सिंह

प्रभारी निरीक्षक
थाना कोतवाली
जनपद फतेहपुर